

## भगत तेरा निशान लेकर आये | By Atul Pareek

फाल्कून की रत है आई  
भक्तों के मन में छायी  
बाबा की याद है आई  
मन हो गया खाटू का  
भगत तेरा निशाना लेकर आये  
निशान तेरा मलमल का

टिकते नहीं है ज़मीं पे मेरे बाँव रे  
अच्छा नहीं लागे अब घर गली गाँव रे  
जबसे खाटू धाम गया हूँ चैन नहीं पल का

रींगस के रास्ते में उड़ता गुलाल है  
भक्तों संग टोलियों में भजनो का साथ है  
फागुन के मेले में मेरा सांवरा भी लाल है

खाटू में पहुँचते ही दिखता तोरण द्वार है  
अतुल ये सपना तूने कर दिया साकार है  
पग पग पर ये साथ चला है रास्ता दिखाता

<https://bhaktivandana.com/lyrics/%e0%a4%ad%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%87-by-atul-pareek/>